



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3—अप्रैल 9, 2010 (चैत्र 13, 1932)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3—APRIL 9, 2010 (CHAITRA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. 8एन-पीआरएस-565/79094--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.02.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/17/2008-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में श्री सुनील गौतम, आई टेली. एस(95) उप सचिव को आयोग में निदेशक के रूप में, उन्हें व्यक्तिगत रूप से देय, दिनांक 19.02.2010 (पूर्वाह्न) से अपने कार्यकाल की शेष अवधि 21.07.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आर. एन. नायक
अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. ओ-दो-6099/2010-कार्मिक (डी.ए.-5)--सरकारी सेवा से स्वीच्छक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 14.01.2010 के स्वीकार

हो जाने के फलस्वरूप श्री राकेश जैन, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल. ए.-6099) महानिदेशालय, केरिपु बल, ने दिनांक 01.03.2010 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.03.2010 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
[महालेखाकार (ले. व.ह.) का कार्यालय, केरल]

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. प्रशासन 5/9-86/VL/310--महालेखाकार (ले. व.ह.) ने इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड पीबी-3 में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित हर एक के नाम के

सामने दर्शाए दिनांक से वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में नियुक्त किया है :--

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
(सर्वश्री/श्रीमती)		
1.	रोसम्मा टी. जे.	01.01.2010 पू.
2.	एलसियाम्मा जोस	01.01.2010 पू.
3.	विजयलेखा के. के.	01.01.2010 पू.
4.	गिरिजा देवी ए. एस.	01.01.2010 पू.
5.	सूसन मैथ्यू	01.01.2010 पू.
6.	रमा देवी बी. एस.	01.01.2010 पू.
7.	श्यामला एस. (सं. 2)	01.01.2010 पू.
8.	विजयकुमारी टी. के.	01.01.2010 पू.
9.	ललिता बी.	01.01.2010 पू.
10.	अंबिका कुमारी जी.	01.01.2010 पू.
11.	ईदिरा के. (सं. 2)	01.01.2010 पू.
12.	जयकुमारी जी (सं. 1)	04.01.2010 पू.
13.	शीला एस.	01.01.2010 पू.
14.	तंकम्मा के. के.	01.01.2010 पू.
15.	सुधा एम.	01.01.2010 पू.
16.	ईदिरा सी. आर.	01.01.2010 पू.
17.	सुमतिकुट्टी सी. जे.	22.01.2010 अ.
18.	यशोधरन पी.	22.01.2010 अ.
19.	जोसफ पी. जे.	22.01.2010 अ.

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन 5/9-86/VI--महालेखाकर (ले. व. ह.) ने इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड पीबी-2 में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित हर एक के नाम के सामने दर्शाए दिनांक से लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में नियुक्त किया है :--

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
(सर्वश्री/श्रीमती)		
1.	जयतीश्वरी सी.	24.12.2009 पू.
2.	लीला पी. सी.	21.12.2009 पू.

1	2	3
(सर्वश्री/श्रीमती)		
3.	वेणुगोपाल एम. जी.	01.01.2010 पू.
4.	एलिज़बेथ माम्मेन	01.01.2010 पू.
5.	लीला बी. के.	01.02.2010 पू.
6.	वसंताकुमारी बी. के.	01.02.2010 पू.
7.	बीना एस.	01.02.2010 पू.

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन 5/9-86/VI/310-महालेखाकर (ले. व. ह.) ने इस कार्यालय के निम्नलिखित तदर्थ सहायक लेखा अधिकारियों को रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड पीबी-2 में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- सहित हर एक के नाम के सामने दर्शाए दिनांक से सहायक लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में नियमित किया है :--

क्र.सं.	नाम	नियमित करने की तारीख
1	2	3
(सर्वश्री/श्रीमती)		
1.	श्रीकुमार जी.	01.01.2010 पू.
2.	मुरलीधरन नायर एन.	01.01.2010 पू.
3.	नन्दकिशोर के.	01.01.2010 पू.
4.	अशोक कुमार के. आर.	01.01.2010 पू.
5.	उदयकुमार एस.	01.01.2010 पू.
6.	जयदेव के. पी.	01.02.2010 पू.
7.	श्रीकुमार एस.	01.02.2010 पू.
8.	राजेंद्र प्रसाद पी.	01.02.2010 पू.

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (वा. लि. एवं प्रा. ले. प.) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. प्रशा.(वा.लि. एवं प्रा.ले.प.)2-8-ग्रुप बी वोल्यू.-IV/1525-- मुख्यालय अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सिए-1/प्रशासन/35 दिनांक 12.03.2010 की अनुपालन में श्री ए. वेंकटरमण राउ, वरिष्ठ लेखा परीक्षक अपने पदोन्नति पे.बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड पे रु. 4,800/- के साथ वेतन मांग पर दिनांक 12.03.2010 (पूर्वार्द्ध) से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वा.) के पद पर कार्यालय महालेखाकार

(वा.लि. एवं प्रा.ले.प.), ओड़िशा, भुवनेश्वर के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा खण्ड कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है।

यदि कोर्ट ट्रिब्युनल के सब जुडिस/कोर्ट में लिखित हो या अधिका में कोई दावा हो तो बिना पक्षपात में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वा.) पद पर पदोन्नति सीएटी/उच्च न्यायलय/सर्वोच्च न्यायलय निर्णय के अधीन है।

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

सं. ए-19011/328/88-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. एस. एस. हरगोपाल, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 01.02.2010 (अपराह्न) से अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 17 मार्च 2010

सं. ए-19011/525/96-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. ए. एन. मूर्ति, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी को भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर में दिनांक 10.03.2010 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/488/2010-स्था. ए.--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या-12016/08/2009-आईएसएस दिनांक 03.02.2010 के अनुपालन में श्री कुमार सुंदरम (आई.एस.एस. 29वाँ बैच) ने भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 12.02.2010 (पूर्वाह्न) से सहायक खनिज अर्थशास्त्री (सां.) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. ए-19012/463/2009-स्था. पी. पी.--श्रीमती जे. एल. फर्नांडिस, निजी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, गोवा वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर

सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) से कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19012/235/2009-स्था. पी. पी.--श्री जी. सिद्धय्या, सहायक खनन भूविज्ञानी को भारतीय खान ब्यूरो, हैदराबाद वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) से कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19012/448/2009-स्था. पी. पी.--श्री अरूप कुमार बन्धोपाध्याय सहायक खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 28.02.2010 (अपराह्न) से कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

संस्कृति मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)
भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. 4-351/2010/स्थापना--निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण सहर्ष इस सर्वेक्षण के मुख्यालय, कोलकाता के डॉ. (श्रीमती) चुमकी पिपलाई, अनुसंधान सहयोगी को सहायक मानवविज्ञानी, युप-बी, (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- के परिशोधित वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) के ग्रेड वेतन रु. 4,600/- के साथ उसी केन्द्र में दिनांक 08 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला

कोलकाता-700091, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. ए-12026/1/05-मुख्यालय--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परीक्षण शाला के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायकों (सिविल) को राष्ट्रीय परीक्षण शाला में, नियमित आधार पर, वैज्ञानिक अधिकारी (सिविल) के पद पर वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित उनके प्रत्येक के सामने

उल्लिखित दिनांक से पदोन्नत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं जो कि उनके सामने दर्शाये गए दिनांक से प्रभावी होगा :--

क्र. नाम तथा पदनाम सं.	वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तिथि
1. श्रीमती मेमोल बोबेन, एस.ए.(सिविल)	12.02.2010 (अपराह्न)
2. श्री एस. एम. परनेरिया, एस.ए.(सिविल)	12.02.2010 (अपराह्न)
3. श्री एस. मुरली, एस.ए.(सिविल)	10.11.2009 (अपराह्न)

प्र. हैंस

उपनिदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. 24/2(1)/2009-सीसीएस/07--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के सहायक निदेशक (राजभाषा) (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- एसीपी) श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा को दिनांक 23.02.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई में उप निदेशक (राजभाषा) (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चावको
विशेष कार्य अधिकारी

दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 24/2(1)/2009-सीसीएस/06--राष्ट्रपति, इस विभाग के नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के सहायक निदेशक (राजभाषा) (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- एसीपी) श्री गजानन पाण्डेय दिनांक 21.01.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, उसी सम्मिश्र में उप निदेशक (राजभाषा) (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चावको
विशेष कार्य अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-कै.का./2010/182--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीमती पंचवल्सला गोपीनाथ, सहायक लेखाकार, रु. 9,300--34,800/- वेतन बैंड + रु. 4,200/- ग्रेड वेतन, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुम्बई को दिनांक 19.10.2009 (पूर्वाह्न) से 03.12.2009 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/213--दिनांक 09.02.2010 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/134 के क्रम में, श्री आर. गेमा नायक, प्रवर श्रेणी लिपिक को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 20.03.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. पखनि-1/8/2007-भर्ती/वाल्चूम/823--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक प्रत्येक को उनके सामने उल्लिखित शाखा में पे-बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्र. नाम सं.	शाखा	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1. श्री पांचाल रितेश कुमार रमेशभाई	इलेक्ट्रॉनिक्स	16.12.2009 (अपराह्न)
2. श्री अल्बान्सियस जॉन बूफैंग	भौतिकी	21.12.2009 (पूर्वाह्न)
3. श्री शचिन्द्र शुक्ला	भूविज्ञान	23.12.2009 (पूर्वाह्न)

वी. विजय राम रेड्डी
प्रशासनिक अधिकारी-III

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद-121001, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. 3-1673/2009-अनु.स्था. 491--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिशों पर एवं संक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को पे बैंड-2 के वेतनमान रु. 9,300--34,800/- एवं 4,800/- रु. ग्रेड पे सहित प्रशासनिक अधिकारी, सा.सि.से. (समूह-ख) (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में

अस्थाई आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि के (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री आर. के. शर्मा	01.07.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एन. पी. वर्मा	06.07.2009 (पूर्वाह्न)

उपरोक्त पदाधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे जो कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है।

मूल चंद वर्मा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स एजुकेशनल सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)/रेगुलर/यू 74900 /डीएल-1993/पीएलसी-051730--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एजुकेशनल सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

अनिता क्लेर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. 560(3)/2689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15544	मैसर्स कैलाश मोसर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	33707	मैसर्स रिशीकुल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
3.	03410	मैसर्स लारी पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20117	मैसर्स तपरिया रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड

1	2	3
5.	12308	मैसर्स मोहन एग्रो मिल्स लिमिटेड
6.	32869	मैसर्स रिसेन्ट ऑरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15269	मैसर्स किशोर इन्वेस्टमेंट कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	05133	मैसर्स के. मेथाकुलान एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15695	मैसर्स सिचलस डायगनोस्टिक्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	35368	मैसर्स सक्सेसवे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	05213	मैसर्स गंगा रीफैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	20529	मैसर्स महेश कॉमर्शियल क्रेडिट इण्डिया लिमिटेड
13.	21434	मैसर्स ए टू जेड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
14.	04882	मैसर्स गोइनका पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड
15.	08356	मैसर्स महालक्ष्मी गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	24563	मैसर्स अभिराज कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	06182	मैसर्स प्राईम पॉवर फेडरर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	02333	मैसर्स नॉरदन रेडियो एण्ड रेफ्रिजरेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	35256	मैसर्स जनता शीतग्रह प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. भाह
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स एस एन ए कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जम्मू, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 560(3)/2009/2457/5091--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस एन ए कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मनोज कुमार बागडी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स अन्नपूर्णा बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जम्मू, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 560(3)/2009/2511/5095--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अन्नपूर्णा बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मनोज कुमार बागडी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इविज़ीबल एक्सप्रेस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जम्मू, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 560(3)/2009/2502/5099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इविज़ीबल एक्सप्रेस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मनोज कुमार बागडी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स नेवर निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 28 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/23753/1225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेवर निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स नीम का थाना निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 28 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/23754/1229--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीम का थाना निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स हर्षित मिनरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 28 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/25628/1233--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हर्षित मिनरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स सिरसा मिनरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 28 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/25627/1237--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिरसा मिनरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स राजा पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 28 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/26421/1241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजा पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स चन्द्रा महल लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 25 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/2669/1175--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चन्द्रा महल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इम्पायर सुपरटॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/18814/1184--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इम्पायर सुपरटॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इजी एसेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560/26300/1188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इजी एसेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स एस. मार्केटिंग चैनल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./560/15421/1635--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. मार्केटिंग चैनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 16 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(3)/221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	
1	2	3
1.	6863	मैसर्स ग्रीन इण्डिया एग्रो फोरस्ट्री एण्ड फिसराइज लिमिटेड
2.	6588	मैसर्स एडवान्स मेडिकल मशीन्स लिमिटेड
3.	9378	मैसर्स टेरीस्पिन इण्डिया लिमिटेड
4.	6806	मैसर्स व्हाइट मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड
5.	6970	मैसर्स महावीर एग्रोटेक इण्डिया लिमिटेड
6.	6454	मैसर्स रिसोर्सेस इमेजिंग लिमिटेड
7.	7055	मैसर्स इण्डियन टेक ग्रेनाईट्स लिमिटेड
8.	6580	मैसर्स एडवान्स इमेजिंग्स लिमिटेड
9.	7334	मैसर्स डालमिया होल्डिंग्स लिमिटेड
10.	6554	मैसर्स हैल्थ एण्ड प्रोस्पेरिटी लिमिटेड
11.	12918	मैसर्स आराधना डेयरी फार्म्स लिमिटेड
12.	11663	मैसर्स हाडोती फार्मास्यूटिकल एण्ड सर्जिकल्स लिमिटेड
13.	15978	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ सिटी डेवलपर्स लिमिटेड
14.	7464	मैसर्स मेरकोन बाई सेल कम्पनी लिमिटेड
15.	15192	मैसर्स महादेव इनोवगनिक्स लिमिटेड
16.	15181	मैसर्स मारुति मिनकेम लिमिटेड
17.	18163	मैसर्स डायनामिक टेक्नोक्राफ्ट्स लिमिटेड
18.	19091	मैसर्स तारा प्रोजेक्ट्स फेयर ट्रेड इण्डिया लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
19.	6107	मैसर्स जयपुर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	51.	5701	मैसर्स पीसीएस सेरामिक्स लिमिटेड
20.	6537	मैसर्स नॉर्थगेट लाइटेओरिपटर्स लिमिटेड	52.	15653	मैसर्स पी. आर. जी. लाईमस्टोन्स लिमिटेड
21.	7833	मैसर्स सिघानिया इण्डिया लिमिटेड	53.	16939	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ मल्टीलेवल मार्केटिंग लिमिटेड
22.	13193	मैसर्स राजस्थान ग्रीनजीन्स बाईटेक लिमिटेड	54.	12381	मैसर्स बुंदी फाईनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
23.	14813	मैसर्स सर्व मार्केटिंग्स लिमिटेड	55.	7905	मैसर्स विधान मार्बल्स लिमिटेड
24.	16657	मैसर्स ऑस्कर ऑटिक फाईबर लिमिटेड	56.	12658	मैसर्स राजस्थान गोल्डन ग्रीन फिल्ड्स लिमिटेड
25.	15691	मैसर्स माउण्ड नेचुरल फर्टिलाइजर लिमिटेड	57.	12625	मैसर्स उर्वसी फार्मस एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
26.	19546	मैसर्स प्रिमियम क्राफ्ट्स इण्डिया लिमिटेड	58.	6832	मैसर्स नाहर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
27.	12626	मैसर्स वेक्स होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड	59.	6882	मैसर्स जुपिटर लेदर लिमिटेड
28.	12285	मैसर्स एसजीएस एग्रो एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड	60.	6967	मैसर्स राईटिंग इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
29.	15774	मैसर्स सरिल केम लेबोरेटरीज लिमिटेड	61.	6696	मैसर्स स्पेक्ट्रम इन्टरग्रेटेड रिसोर्सेज लिमिटेड
30.	13459	मैसर्स राजश्री होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड	62.	6749	मैसर्स गोल्डस्मिथ एग्रो लिमिटेड
31.	12597	मैसर्स समर्थ सर्जिकल्स लिमिटेड	63.	6753	मैसर्स अटलांटिक ग्रेनाईट्स एण्ड माईनिंग कम्पनी लिमिटेड
32.	15477	मैसर्स खजाना शोप्स ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड	64.	6790	मैसर्स श्री राम वनस्पती लिमिटेड
33.	18937	मैसर्स अपेक्स टाईल्स एक्सपोर्ट्स इण्डिया लिमिटेड	65.	6327	मैसर्स वाइड फेक्स इण्डिया लिमिटेड
34.	11219	मैसर्स स्काईकॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	66.	6408	मैसर्स पिकसिटी पेपर कन्वर्टर्स लिमिटेड
35.	12373	मैसर्स रोहिनी ग्रीन हाउसेज लिमिटेड	67.	6555	मैसर्स होस्पिटलियि एण्ड हैपीनेस लिमिटेड
36.	11390	मैसर्स पदम बेरिंग्स इण्डिया लिमिटेड	68.	6480	मैसर्स ओम कोठारी इस्पात लिमिटेड
37.	11212	मैसर्स एस. जे. निकाड इण्डिया लिमिटेड	69.	5813	मैसर्स जयश्री फोरेस्ट्स लिमिटेड
38.	12920	मैसर्स श्री चारभुजा फिल्म्स एण्ड कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	70.	8232	मैसर्स मेकवेल फाईनेस कम्पनी लिमिटेड
39.	11040	मैसर्स रेनबो रेकरेशन लिमिटेड	<p>एस. पी. कुमार कम्पनी रजिस्ट्रार राजस्थान</p> <p>कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रोटेट स्लेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में अहमदाबाद-380013, दिनांक 19 मार्च 2010</p> <p>सं. आर.ओ.सी./54612/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोटेट स्लेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।</p> <p>कमल हरजानी सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली</p>		
40.	14955	मैसर्स किंग विन कोमिकल्स लिमिटेड			
41.	15200	मैसर्स रोलजेक इण्डिया लिमिटेड			
42.	12516	मैसर्स के. आर. कॉलोनाईजर्स लिमिटेड			
43.	13922	मैसर्स चन्द्रा ऑटो फाईनेस लिमिटेड			
44.	5897	मैसर्स राजदीप बायो-टेक लिमिटेड			
45.	6110	मैसर्स अनुपम लुब्रीकेन्ट्स लिमिटेड			
46.	6271	मैसर्स झुन्धुनुवाला कोटन प्रोसेसर्स लिमिटेड			
47.	6278	मैसर्स गोयल ब्रेवरिज लिमिटेड			
48.	6820	मैसर्स शिवना प्रेससियस ग्रेनाईट्स लिमिटेड			
49.	6581	मैसर्स डिजिटल डायनामिक्स लिमिटेड			
50.	5888	मैसर्स सिल्क एन टेक्स इण्डिया लिमिटेड			

કમલ હરજાની
સહાયક કંપની રજિસ્ટ્રાર
ગુજરાત, દાદરા एवं નગર હવેલી

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स रामुल डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./18772/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि मैसर्स रामुल डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स लेक्सीस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./38219/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स लेक्सीस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स मेघालय रीक्रूटमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7657--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स मेघालय रीक्रूटमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स हरस्सा डेकोर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7658--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स हरस्सा डेकोर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स निकीता एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7659--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स निकीता एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स डब्ल्यूएमजेएम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7619--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स डब्ल्यूएमजेएम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स टी. ए. नगुल्ली फूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7620--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी. ए. नगुल्ली फूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीप. ना. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स चीप ट्रेवल्स एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7645--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चीप ट्रेवल्स एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीप. ना. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स के. जनरल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग/7647--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. जनरल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीप. ना. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 5 मार्च 2010

सं. एस एम 560 (3) एस एम/एफ/16/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 15488	मैसर्स आर. सी. एम. हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
2. 15459	मैसर्स कोरट्टी स्वरूपम मकैयईलज प्राईवेट लिमिटेड
3. 15650	मैसर्स अश्वामेघ क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4. 15565	मैसर्स गौरीकमलम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
5. 15543	मैसर्स तीर्थम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
6. 15631	मैसर्स कम्पिटेन्ट सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
7. 19648	मैसर्स तिरुवनन्तापुरम सीपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

वी. इ. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स मजस्टिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 4850--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मजस्टिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल व लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स सि-सोन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2010/00022--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सि-सोन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल व लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./560(3)/7775--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	15-007294	मैसर्स सरकार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-007308	मैसर्स मिनाखी रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-007314	मैसर्स मारुफ कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-007319	मैसर्स सुभद्रा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-007323	मैसर्स माँ भुआसुड़ी कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-007324	मैसर्स जीवन ज्योति रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-007332	मैसर्स अम्बर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-007335	मैसर्स सीलैण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-007339	मैसर्स महानगर रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-007341	मैसर्स आस्कमी कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-007349	मैसर्स सुरक्षित मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	15-007350	मैसर्स जयम टेक्नोविजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-007357	मैसर्स न्यू लाईफ हर्ब्स केयर प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-007361	मैसर्स आस्था टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-007363	मैसर्स अल्फा इक्विपमेंट्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-007364	मैसर्स प्रेरणा कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-007367	मैसर्स रैडिक्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-007533	मैसर्स लोहिताकश्य कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-003342	मैसर्स इन्नेमा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

बी. महान्ति
कम्पनी रजिस्ट्रार
ओड़िशा

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स ग्रीनटेक रेनिवबिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 2 मार्च 2010

सं. 560(3)का.क.म./क.प.-चेन्नै/धारा 560/2010/00227-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीनटेक रेनिवबिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपपुंज

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 11th March 2010

No. 8N-PRS-565/79054—In terms of Department of Personnel & Training OM No. 6/17/2008-EO(MM-I), dated 18th February, 2010 Shri Sunil Gautam, I. Tele. S(95), Dy. Secretary is hereby appointed as Director in the Commission with effect from the forenoon of 19.02.2010 as a measure personal to him for the balance period of his tenure upto 21.07.2014 or till further orders, whichever is earlier.

R. N. NAYAK
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 15th March 2010

No. O-II-6099/2010-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 14.01.2010 for Voluntary Retirement from service, Shri Rakesh Jain, Assistant Commandant (IRLA : 6099) of Directorate General, CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st March 2010. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.03.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 18th March 2010

No. Admn. V/9-86/VI/310—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Accounts Officers of this office as Senior Accounts Officers (Group B) in the PB-3 Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	DOA
1	2	3
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Rosamma TJ	01.01.2010 FN
2.	Elsamma Jose	01.01.2010 FN
3.	Vijayalekha KK	01.01.2010 FN
4.	Girijadevi AS	01.01.2010 FN
5.	Susan Mathew	01.01.2010 FN
6.	Remadevi VS	01.01.2010 FN
7.	Syamala S (No. 2)	01.01.2010 FN
8.	Vijayakumari TK	01.01.2010 FN
9.	Lalitha B	01.01.2010 FN
10.	Ambika Kumari G	01.01.2010 FN

1	2	3
	(S/Shri/Smt.)	
11.	Indira K (No. 2)	01.01.2010 FN
12.	Jayakumari G (No. 1)	04.01.2010 FN
13.	Sheila S	01.01.2010 FN
14.	Thankamma KK	01.01.2010 FN
15.	Sudha M	01.01.2010 FN
16.	Indiara CR	01.01.2010 FN
17.	Sumathikutty CJ	22.02.2010 AN
18.	Yesodharan P	22.02.2010 AN
19.	Joseph PJ	22.02.2010 AN

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/VI/310—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Asstt. Accounts Officers of this office as Accounts Officers (Group-B) in the PB-2 Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	DOA
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Jayatheeswary C	24.12.2009 FN
2.	Leela PC	21.12.2009 FN
3.	Venugopal MG	01.01.2010 FN
4.	Elizabeth Mammen	01.01.2010 FN
5.	Leela BK	01.02.2010 FN
6.	Vasanthakumari VK	01.02.2010 FN
7.	Beena S	01.02.2010 FN

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/VI/310—The Accountant General (A&E) has been pleased to regularise the following ad hoc Asstt. Accounts Officers of this office as Asstt. Accounts Officers (Group-B) in the PB-2 Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	DOA
1	2	3
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Sreekumar G	01.01.2010 FN
2.	Muraleedharan Nair N	01.01.2010 FN
3.	Nandakishore K	01.01.2010 FN
4.	Asoka Kumar KR	01.01.2010 FN

1	2	3
5.	Udayakumar S	01.01.2010 FN
6.	Jaidev KP	01.02.2010 FN
7.	Sreekumar S	01.02.2010 FN
8.	Rajendra Prasad P	01.02.2010 FN

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 17th March 2010

No. Admn (CW&RA)/2-8-Gr"B"-Vol-IV/1525—In pursuance of Headquarter's Sectional Office Order No. CA-I/Admn./35 Dt. 12.03.2010, Sri A. Venkat Raman Rao, Sr. Auditor on his promotion has assumed charges as Assistant Audit Officer(Coml) in Pay Band-2, in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 12.03.2010 FN in the Commercial Audit wing, O/o the Accountant General (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar.

The promotion to the cadre of Asstt. Audit Officer (Coml) is subject to the final decision of Hon'ble CAT/High Court/Supreme Court etc. in the case if any Sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claim of his seniors.

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 9th March 2010

No. A-19011/328/88-Estt.-A—On the recommendation of the Departmental Promotional Committee Shri A. S. S. S. Hargopal, Deputy Ore Dressing Officer is promoted to the post of Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 01.02.2010 (A.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
for Controller General

The 17th March 2010

No. A-19011/525/96-Estt.-A—On the recommendation of the Departmental Promotional Committee Dr. A. N. Murthy, Senior Mining Geologist is promoted to the post of Regional Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Ajmer w.e.f. 10.03.2010 (F.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
for Controller General

No. A-19012/488/2010-Estt.-A—In compliance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New

Delhi, Office Order No. 12016/08/2009-ISS dated 03.02.2010, Shri Kumar Sundaram (ISS 29th Batch) has taken over the charge of Asstt. Mineral Economist (Stat) in Indian Bureau of Mines w.e.f. 12.02.2010 (FN).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
for Controller General

Nagpur, the 15th March 2010

No. A-19012/463/2009-Estt. APP.—Smt. J. L. Fernandes, Private Secretary, Indian Bureau of Mines, Goa has relinquished charge on the afternoon of 31.12.2009 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

No. A-19012/235/2009-Estt. APP.—Shri G. Siddaiah, Assistant Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, Hyderabad has relinquished charge on the afternoon of 31.12.2009 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

No. A-19011/448/2009-Estt. APP.—Shri Arup Kumar Bandhyopadhyay, Assistant Mineral Economist, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 28.02.2010 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

MINISTRY OF CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 17th March 2010

No. 4-351/2010/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Chumki Piplai, Research Associate (Physical), attached to the Head Office of this Survey at Kolkata to the post of Assistant Anthropologist (Physical), Group-B (Gazetted), in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (Pre-revised) corresponding Pay Band PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- (revised) at the same station with effect from the forenoon of 8th March, 2010, until further orders.

D. N. PANDEY
Head of Office

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
NATIONAL TEST HOUSE

Kolkata-91, the 17th March 2010

No. A-12026/1/05-HQ—The President is pleased to appoint the following Scientific Assistants (Civil) to the post of Scientific Officer (Civil) on promotion in National Test House on regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Appointment Promotion as Sc. Officer
1.	Smt. Maymole Boben, S. A. (Civil)	12.02.2010 (AN)
2.	Sri S. M. Pameria, S. A. (Civil)	12.02.2010 (AN)
3.	Sri S. Murali, S. A. (Civil)	10.11.2009 (AN)

P. HANS
Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 11th March 2010

No. 24/2(1)/2009-CCS/07—The President is pleased to appoint Shri Ram Prakash Vishwakarma, Assistant Director (Official Language) (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- ACP) of Department of Atomic Energy, Mumbai as Deputy Director (Official Language) (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai w.e.f. 23.02.2010 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO
Officer-on-Special Duty

The 12th March 2010

No. 24/2(1)/2009-CCS/06—The President is pleased to appoint Shri Gajanan Pandey, Assistant Director (Official Language) (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- ACP), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad of this Department as Deputy Director (Official Language) (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the same complex w.e.f. 21.01.2010 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO
Officer-on-Special Duty

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 12th March 2010

No. HWB/R/5(2)-CO/2010/182—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Smt. Panchavalsala Gopinath, Assistant Accountant in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- Heavy Water Board (Central Office), Mumbai to officiate as

Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 19.10.2009 (FN) to 03.12.2009 (AN).

K. V. PILLAI
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 11th March 2010

No. NFC/PAR-I/04/06/213—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/134 dated 09.02.2010 the ad hoc appointment of Shri R. Gema Naik, Upper Division Clerk as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 20.03.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500629, the 11th March 2010

No. AMD-1/8/2007-Rectt/Vol-III/823—President is pleased to appoint the undermentioned individuals as Scientific Officer-C in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- Grade Pay with effect from the date and discipline mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Discipline	Date of Assumption of Charge
1.	Shri Panchal Riteshkumar Rameshbhai	Electronics	16.12.2009 (A.N.)
2.	Shri Albansius John Buhphang	Physics	21.12.2009 (F.N.)
3.	Shri Shachindra Shukla	Geology	23.12.2009 (F.N.)

V. VIJAYA RAMI REDDY
Administrative Officer-III

MINISTRY OF WATER RESOURCES
(CENTRAL GROUND WATER BOARD)

Faridabad, the 17th March 2010

No. 3-1673/09-Min.Estt./1954—On the recommendations of the DPC (Group-B) and with the approval of the Competent Authority the following Office Superintendents are promoted to the post of Administrative Officer (Group-B) (GCS Gazetted) in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in Central Ground

Water Board on temporary basis with effect from the forenoon of the dates as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining to the promotional post
1.	Shri R. K. Sharma	01.07.2009 (FN)
2.	Shri N. P. Verma	06.07.2009 (FN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the dates mentioned against their names, which can be extended up by the Competent Authority, if considered necessary.

MOOL CHAND VERMA
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Educational Services (India) Limited

New Delhi-110019, the 15th March 2010

No. 560(3)/Regular/U74900DL/1993/PLC/051730/12278—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Educational Services (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

ANITA KLAIR
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208001, the 18th March 2010

No. 560(3)/2689—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15544	M/s. Kailash Moser Industries Private Limited
2.	33707	M/s. Rishikool Infotech Private Limited
3.	03410	M/s. Lawrie Packagings Private Limited
4.	20117	M/s. Taparia Roller Flour Mills Limited
5.	12308	M/s. Mohan Agro Mills Limited
6.	32869	M/s. Recent Organics Private Limited
7.	15269	M/s. Kishore Investment Consultants Private Limited

1	2	3
8.	05133	M/s. K Methaqualone and Chemicals Private Limited
9.	15695	M/s. Singhals Diagnostics and Leasing Private Limited
10.	35368	M/s. Successway Marketing Private Limited
11.	05213	M/s. Ganga Refractories Private Limited
12.	20529	M/s. Mahesh Commercial Credit India Limited
13.	21434	M/s. A to Z Plastic Private Limited
14.	04882	M/s. Goenka Poly Pack Private Limited
15.	08356	M/s. Mahalaxmi Gases Private Limited
16.	24563	M/s. Abhiraj Computers Private Limited
17.	06182	M/s. Prime Power Feeders Private Limited
18.	02333	M/s. Northern Radio and Refrigeration Company Private Limited
19.	35256	M/s. Janta Sheet Grah Private Limited

M. P. SHAH
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. SNA Consultants Private Limited

Jammu-180012, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Jammu/sec 560/2010/00184/5089—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SNA Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MANOJ KUMAR BAGRI
Registrar of Companies
Jammu and Kashmir

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Annapurna Business Solutions Private Limited

Jammu-180012, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Jammu/sec 560/2010/00187/5093—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Annapurna Business Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MANOJ KUMAR BAGRI
Registrar of Companies
Jammu and Kashmir

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Invincible Express Services Private Limited

Jammu-180012, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Jammu/sec 560/2010/00179/5096—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of
M/s. Invincible Express Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

MANOJ KUMAR BAGRI
Registrar of Companies
Jammu and Kashmir

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Newar Nirman Company Private Limited

Jaipur, the 28th February 2010

No. ROC/JPR/560/23753/1225—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Newar Nirman Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Neem-Ka-Thana Nirman Company Private Limited

Jaipur, the 28th February 2010

No. ROC/JPR/560/23754/1229—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Neem-Ka-Thana Nirman
Company Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Harshit Minerals and Stone Kresher Private Limited

Jaipur, the 28th February 2010

No. ROC/JPR/560/23628/1233—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Harshit Minerals and Stone
Kresher Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Sirsa Minerals and Stone Kresher Private Limited

Jaipur, the 28th February 2010

No. ROC/JPR/560/23627/1237—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Sirsa Minerals and Stone
Kresher Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Raza Polypack Private Limited

Jaipur, the 28th February 2010

No. ROC/JPR/560/26421/1241—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Raza Polypack Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Chandra Mahal Limited

Jaipur, the 25th February 2010

No. ROC/JPR/560/2669/1175—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Chandra Mahal Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Empire Supertarps Private Limited

Jaipur, the 26th February 2010

No. ROC/JPR/560/18814/1184—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from the
date hereof the name of M/s. Empire Supertarps Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Easy Access Marketing Private Limited

Jaipur, the 26th February 2010

No. ROC/JPR/560/26300/1188.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Easy Access Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. S. Marketing Channel Private Limited

Jaipur, the 15th March 2010

No. ROC/JPR/560/15451/1635.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. Marketing Channel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
the following Companies

Jaipur, the 16th March 2010

No. ROC/JPR/560/3/221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Company Name
1	2	3
1.	6863	M/s. Green India Agro Forestry and Fisheries Limited
2.	6588	M/s. Advance Medical Machines Limited
3.	9378	M/s. Terryspin (India) Limited
4.	6806	M/s. White Milk Products Limited
5.	6970	M/s. Mahaveer Agrotech India Limited
6.	6454	M/s. Resonance Imaging Limited
7.	7055	M/s. Indian Tech Granites Limited
8.	6580	M/s. Advance Imaging Limited
9.	7334	M/s. Dalmia Holdings Limited
10.	6554	M/s. Health and Prosperity Limited
11.	12918	M/s. Aradhana Dairy Farms Limited

1	2	3
12.	11663	M/s. Hadoti Pharmaceutical and Surgical's Limited
13.	15978	M/s. Indraprastha City Developers Limited
14.	7464	M/s. Mercon Buy Sell Company Limited
15.	15192	M/s. Mahadev Inorganics Limited
16.	15181	M/s. Maruti Minchem Limited
17.	18163	M/s. Dynamic Technocrats Limited
18.	19091	M/s. Tara Projects Fair Trade India Limited
19.	6107	M/s. Jaipur Hospitals Limited
20.	6537	M/s. Northgate Lithotripters Limited
21.	7833	M/s. Singhania India Limited
22.	13193	M/s. Rajasthan Greengreens Buitech Limited
23.	14813	M/s. Search Marketings Limited
24.	16657	M/s. Oscar Optic Fibre Limited
25.	15691	M/s. Mount Natural Fertilizer Limited
26.	19546	M/s. Premium Crafts (India) Limited
27.	12626	M/s. Vax Hotels and Resorts Limited
28.	12285	M/s. SGS Agro and Developers Limited
29.	15774	M/s. Shrill Chem Laboratories Limited
30.	13459	M/s. Rajshree Hotels and Resorts Limited
31.	12597	M/s. Samrat Surgicals Limited
32.	15477	M/s. Khazana Shops Organisation Limited
33.	18937	M/s. Apex Tiles Exports India Limited
34.	11219	M/s. Skyscraper Infrastructure Limited
35.	12373	M/s. Rohini Green Houses Limited
36.	11390	M/s. Padam Bearings India Limited
37.	11212	M/s. S. J. Nicad India Limited
38.	12920	M/s. Shree Charbhuja Films and Communications Limited
39.	11040	M/s. Rainbow Recreation Limited
40.	14955	M/s. King-Win Chemicals Limited
41.	15200	M/s. Roljack India Limited
42.	12516	M/s. K. R. Colonizers Limited
43.	13922	M/s. Chandra Auto Finance Limited
44.	5897	M/s. Rajdeep Bio-Tech Limited
45.	6110	M/s. Anupam Lubricants Limited
46.	6271	M/s. Jhunjhunwala Cotton Processors Limited
47.	6278	M/s. Goyal Breweries Limited
48.	6820	M/s. Shivana Precious Granites Limited
49.	6581	M/s. Digital Dynamics Limited
50.	5888	M/s. Silk-N-Tex (India) Limited

1	2	3
51.	5701	M/s. PCS Ceramics Limited
52.	15653	M/s. P. R. G. Limestones Limited
53.	16939	M/s. Indraprastha Multilevel Marketing Limited
54.	12381	M/s. Bundi Finance and Investments Limited
55.	7905	M/s. Vidhan Marbles Limited
56.	12658	M/s. Rajasthan Golden Green Fields Limited
57.	12625	M/s. Urvashi Farms and Resorts Limited
58.	6832	M/s. Nahar Industries Limited
59.	6882	M/s. Jupiter Leather Limited
60.	6967	M/s. Writing Instruments Limited
61.	6696	M/s. Spectrum Integrated Resources Limited
62.	6749	M/s. Goldsmith Agro Limited
63.	6753	M/s. Atlantik Granites and Mining Company Limited
64.	6790	M/s. Shri Ram Vanaspati Limited
65.	6327	M/s. Wide Fax (India) Limited
66.	6408	M/s. Pinkcity Paper Convertors Limited
67.	6555	M/s. Hospitality and Happiness Limited
68.	6480	M/s. Om Kothari Ispat Limited
69.	5813	M/s. Jayshree Forests Limited
70.	8232	M/s. Makewell Finance Company Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Rotate Black (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 19th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00449/21638—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Rotate Black (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ramul Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 21st April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009/00109/1163 to 1166—Notice is hereby given pursuant to Sub-

section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Ramul Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Heemanshu Jewellers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 21st April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009/00112/1159 to 1162—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Heemanshu Jewellers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Harshal Exim Private Limited

Ahmedabad-380013, the 21st April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009/00115/1155 to 1159—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Harshal Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Oswal Polyfins Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00779/21548—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Oswal Polyfins Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Mehta Cargo Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009/00951/21551—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Mehta Cargo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Heemanshu Jewellers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 28/21560—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heemanshu Jewellers Private Limited has this day been struck off the Resgister and the said Company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Harshal Exim Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 27/21565—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Harshal Exim Private Limited has this day been struck off the Resgister and the said Company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ramul Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 26/21570—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramul Developers Private Limited has this day been struck off the Resgister and the said Company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Lexis Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00011/21555—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Lexis Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Meghalaya Recruitment Services Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00612/7657—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Meghalaya Recruitment Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Harsha Decor Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00519/7658—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Harsha Decor Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Nikita Agrotech Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00524/7659—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three month from the date hereof the name of M/s. Nikita Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. WMJM Constructions Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00031/7619—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. WMJM Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. T. A. Ngullie Fruit Products Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00009/7620—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. T. A. Ngullie Fruit Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Chief Travels & Communications Private Limited

Shillong-793001, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00338/7645—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Chief Travels & Communications Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. General Engineering Private Limited

Shillong-793001, the 15th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00340/7647—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. General Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
the following Companies

Kochi-682021, the 5th March 2010

No. 560(5)SM/F/16/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	15488	M/s. RCM Health Care Private Limited
2.	15459	M/s. Koratty Swaroopam Mercantiles Private Limited
3.	15650	M/s. Ashwamedh Creations Private Limited
4.	15565	M/s. Goureekamalam Kuries Private Limited
5.	15543	M/s. Theertham Kuries Private Limited
6.	15631	M/s. Competent Softech Private Limited
7.	19648	M/s. Thiruvananthapuram Seaport Services Limited

V. E. JOSEKUTTY
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Majestic Exports Private Limited

Ernakulam-682021, the 15th March 2010

No. 4984—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Majestic Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. C-Zone Builders and Developers Private Limited

Ernakulam-682021, the 17th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2010/00022—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C-Zone Builders and Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753001, the 15th March 2010

No. RoC/Sec/560(3)/7775—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	15-007294	M/s. Sarakar Builders Private Limited
2.	15-007308	M/s. Minakhi Real Estates Private Limited
3.	15-007314	M/s. Maruf Construction Private Limited

1	2	3
4.	15-007319	M/s. Subhadra Foods Private Limited
5.	15-007323	M/s. Maa Bhuasuni Construction Private Limited
6.	15-007324	M/s. Jiban Jyoti Real Estate Private Limited
7.	15-007332	M/s. Amber Sales Private Limited
8.	15-007335	M/s. Sealand Marketing Private Limited
9.	15-007339	M/s. Mahanagar Realcon Private Limited
10.	15-007341	M/s. Askme Consultancy Private Limited
11.	15-007349	M/s. Surakshit Marketing Private Limited
12.	15-007350	M/s. Jayam Technovision Marketing Private Limited
13.	15-007357	M/s. New Life Herbs Care Private Limited
14.	15-007361	M/s. Aasthaa Tourism Private Limited
15.	15-007363	M/s. Alfa Equipments Services Private Limited
16.	15-007364	M/s. Prerana Consultants Private Limited
17.	15-007367	M/s. Radix Network Private Limited
18.	15-007533	M/s. Lohitakshya Constructions Private Limited
19.	15-003342	M/s. Intema Services Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Greentech Renewables Private Limited

Chennai-600034, the 2nd March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00227—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Greentech Renewables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands